



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012020-215276
CG-DL-E-09012020-215276

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96]
No. 96]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 7, 2020/पौष 17, 1941
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 7, 2020/PAUSHA 17, 1941

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2019

का.आ. 104(अ).—सार्वजनिक स्थल (अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की नीचे दी गई अधिसूचना संख्या एसओ 915 (ई) दिनांक 24 मार्च, 2014 के अधिक्रमण में, केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित अधिकारी, जो कि भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के समतुल्य हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जो उक्त तालिका के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट सार्वजनिक परिसरों की श्रेणियों के संबंध में, अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत संपदा अधिकारी को दी गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा सौंपे गए उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे:

तालिका

अधिकारी का पदनाम	सार्वजनिक परिसर तथा अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं
(1)	(3)
अनुभाग प्रमुख (कर्मचारी)	भिलाई, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी-सेल पावर कंपनी

सेवा/प्रशासन), एनटीपीस-सेल पावर कंपनी लिमिटेड	प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्वामित्व, पट्टे या किराए पर सभी भूमि, क्वार्टर्स, परिसर, संपत्तियां तथा अन्य आवास।
---	---

[फा. सं. 19/32/2015-थर्मल-I (भाग-II)]

विवेक कुमार देवांगन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th December, 2019

S.O. 104(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) and in supersession of the following notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O. 915 (E), dated the 24th March, 2014, the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being equivalent to the rank of Gazetted Officer in the Government of India, to be Estate Officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officer by or under the said Act, within the local limits of jurisdiction in respect of the categories of public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, namely:-

TABLE

Designation of the officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
Sectional Head (Employee Services/Administration), NTPC-SAIL Power Company Limited	All Lands, Quarters, Estates, Properties and other accommodation owned, leased or rented by the NTPC-SAIL Power Company Private Limited in Bhilai, District-Durg, Chhattisgarh.

[F. No. 19/32/2015-Th.I (Part II)]

VIVEK KUMAR DEWANGAN, Jt. Secy.